



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

7 माघ 1938 (श0)

(सं० पटना 75) पटना, शुक्रवार, 27 जनवरी 2017

---

निर्वाचन विभाग

---

अधिसूचना

23 जनवरी 2017

सं० एम1-0020/2013-01—राजनैतिक दलों एवं निर्वाचक प्रतीक की सूची से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना सं०-56/2017/रा.दल.अनु-III दिनांक 11 जनवरी, 2017 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए पुनः प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सोहन कुमार ठाकुर,

संयुक्त सचिव-सह-

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

## भारत निर्वाचन आयोग

## अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001. दिनांक 11 जनवरी 2017/21 पौष, 1938 (शक)

सं.56/2017 रा.दल.नु-।।।—निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के उप-पैरा 2 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, समय-समय पर यथासंशोधित, अपनी अधिसूचना सं. 56/2016/रा.दल.अनु. -।।।, तारीख 13 दिसम्बर, 2016, में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-

1. उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी - ।।। (रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दल) में:-

(i) स्तम्भ 1, 2 व 3 के अन्तर्गत क्रम सं. 1931 पर विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियाँ क्रमशः अन्तःस्थापित की जाएंगी-

क्रं सं०	पार्टी का नाम	पता
1787	डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी	आर्य स्कूल रोड, वीपीओ - सोहना, एस ए एस नगर, पंजाब- 140 308
1788	बहुजन अवाम पार्टी	मकान सं० - 52/42/ए/2, एडमास्टन रोड, ताशकन्द मार्ग, सिविल लाईन इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
1789	भ्रष्टाचार का अंत पार्टी	64/189 गड़रिया मोहाल कानपुर, उत्तर प्रदेश - 208001
1790	स्वतंत्रा जनताराज पार्टी	811/1, सिविल लाइन आंशिक, वार्ड नं०- 52, झांसी, उत्तर प्रदेश - 284001
1791	आवाम अधिकार जागरण पार्टी	ग्राम - सरोखनपुर, निकट सरकारी अस्पताल (CHC), पोस्ट - बदलापुर, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश - 222125
1792	महिला सशक्तिकरण पार्टी	यू0जी0एफ0 - 62, उद्यान प्लाजा, उत्तरठिया, रायबरेली रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226025
1793	भारत कल्याण पार्टी	ग्राम पंचयत - मेवली, तहसील - खैरागढ़, जिला- आगरा, उत्तर प्रदेश - 283115 ।
1794	दलित शोषित पिछड़ा वर्ग अधिकार दल	ग्राम- हसनपुर जागीर, पोस्ट- सिकन्द्राबाद, जनपद- बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश -203205
1795	मानवीय भारतपार्टी	ग्राम व पोस्ट- रामपुर नद्दी, तहसील- मड़ियाहु, जनपद - जौनपुर, उत्तर प्रदेश - 222105
1796	लोक इंसॉफ पार्टी	बी - XXVII/208/403. डी/5, गुरु रामदास कॉम्प्लेक्स, दुगरी रोड, लुधियाना, पंजाब - 141001 ।

क्रं सं०	पार्टी का नाम	पता
1797	सभी जन पार्टी	ई-1/32, दीनदयालपुरम, तौधकपुर रोड, नौबस्ता, कानपुर, उत्तर प्रदेश - 208021.
1798	राष्ट्रीय गरीब उत्थान पार्टी	ग्राम- नसोपुर, पो.- नगपुर, तहसील- जलालपुर, थाना- जलालपुर, जनपद- अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश - 224149 ।
1799	आजाद समाज पार्टी	ग्राम - मण्डूसरा बुजुर्ग, पो.- फतेहपुर, थाना- रानीपुर, जनपद- मऊ, उत्तर प्रदेश - 276402 ।
1800	भारतीय कामगार पार्टी	ग्राम- चान्दोपारा, पोस्ट- चान्दोपारा, जिला- इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश - 212402 ।
1801	भारत (इन्टिग्रेटेड) रक्षक पार्टी	मकान सं०- बी-98, मेयफिल्ड गार्डन, सेक्टर- 50, गुरुग्राम, हरियाणा- 122018 ।
1802	यूनाइटेड गोअन्स पार्टी	शॉप नं०- 7, म० नं०- 18, ग्रामीलो अपार्टमेंट, डोन्ड्रीम, तेलिगो, तिसवाड़ी, गोवा ।
1803	सिरुप्पानमई मक्कल नाला कॉची	नं. 16ए, 9वी क्रॉस स्ट्रीट, अन्ना नगर, पामल, कॉचीपुरम जिला- चेन्नई तमिलनाडु- 600075
1804	समाज अधिकार कल्याण पार्टी	बूथ नं. 8, सेक्टर- 19-सी, चंडीगढ़ (यू.टी)
1805	तेलंगाना प्रगति समिति	एडीआर एस्टेट हाउस नं०-2-22-295, दूसरी मंजिल, भाग्यनगर कॉलोनी, बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, केपीएचबी मेन रोड, कुक्तपल्ली, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500072
1806	साडा पंजाब पार्टी	शांति नगर, ढंडारी कलां, लुधियाना, पंजाब- 141001 ।
1807	आम जन मजदूर पार्टी	भदपर चौराहा, भदपर, तहसील- लहरपुर, जिला- सीतापुर, उत्तर प्रदेश ।
1808	निज गोयन्कर रिवुलेशन फ्रंट	मकान नं.9/222, पेद्रोंग, वायना वास्को-डा-गामा, गोवा ।
1809	सत्य शिखर पार्टी	मकान सं०- 70-ए, ग्राम- नरहरपुर (शंकरपुर), पोस्ट ऑफिस- मियागंज, जिला - फैजाबाद, उत्तर प्रदेश - 224208
1810	भारत जनसंग्राम पार्टी	मकान नं०- 366, अहिल्या, न्यू गांग्नी नगर, पोस्ट- एच.वी.पी.एम. अमरावती, महाराष्ट्र-444605 ।
1811	पूर्ण स्वराज मंच	मकान नं. 1/328, ग्वाल टोली, फतेहगढ़, जिला-फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश -209601

क्रं सं०	पार्टी का नाम	पता
1812	इंसाफवादी पार्टी	ग्राम व पोस्ट-पियरी, थाना चौबेपुर, जिला- वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221104
1813	अपना पंजाब पार्टी	मकान नं०- 2442, फेज- II, सेक्टर-65, एस.ए.एस. नगर, मोहाली, पंजाब।
1814	इण्डियन सर्वहित पार्टी	6-बी/138, गोपेशकुंज, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226025
1815	राष्ट्रीय किसान मजदूर पार्टी	डब्लू-127, पहला तल, ग्रेटर कैलाश- II, नई दिल्ली-110048
1816	लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी	मकान सं०- 107, केशर कालोनी हल्दोनी, ग्रेटर नोएडा, जिला- गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश - 201306।
1817	सत्तरी युवा मोर्चा	एच नं०- 48, कनकिरे, गुलेली, सत्तरी, गोवा।
1818	गोवा नेशनलिस्ट पार्टी	मकान नं०- 442, चिंचमाला, वाडा पार्ये, सत्तरी, गोवा- 403505।
1819	पिछड़ा सामान्य अल्पसंख्यक व्यापारी किसान पार्टी	मकान नं०-402 ख, नगला खंदारी, अलीपुर पट्टी, थाना व तहसील-भोगाँव, जिला-मैनपुरी, उत्तर प्रदेश।
1820	अखण्ड राष्ट्रवादी पार्टी	7/5/67/2, विकास नगर, सेक्टर 7, समाजवादी पार्टी लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226002
1821	भारतीय बेरोजगार पार्टी	ग्राम-काँटा करौंदी, 1 पोस्ट-मीरक नगर, थाना-निगोहा, तहसील-मोहनलाल गंज, जिला-लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226302
1822	भारतीय राष्ट्रीय जागरूक दल	ई-2548, राजाजीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226017.
1823	राष्ट्रीय विकासवादी जनता पार्टी	ग्राम वे पोस्ट-हरिहरपुर रैकवारी, जिला-बहराईच, उत्तर प्रदेश-271870
1824	सबका दल यूनाइटेड	ग्राम व पोस्ट-सैरपुर, रायथा रोड, ब्लॉक-चिनहट, जिला-लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226201.
1825	लोकतांत्रिक समाजिक न्याय पार्टी	मकान नं०-ई-5, इन्दिरा गांधी मार्ग, पूर्वी विनोद नगर, दिल्ली-110091.
1826	केंद्रीय जनविकास पार्टी	प्लॉट नं०-179, आयुर्वेदिक लेआउट, भांडे प्लॉट, उमरेर रोड, सक्करदरा, जिला-नागपुर, महाराष्ट्र-440024.
1827	रिवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	शहीद सरवण सिंह चीमा रेवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट मेमोरियल ट्रस्ट भवन, बैंक इंडिया-352/1, फगवाड़ी मोहल्ला, गढ़ा, जालंधर, पंजाब-144022.
1828	गोवा सुरक्षा मंच	दुकान नं०-644/1, वार्ड नं०-4, ग्राउण्ड फ्लोर, अहिल्याराम निवास, पंचायती के सामने, सावईवेरे, पोंडा-गोवा।
1829	भारतीय जन जन पार्टी	दुकान संख्या-8 व 9, द्वितीय तल, गोयल प्लाजा, फैजाबाद रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
1830	भारतीय भाईचारा पार्टी	मकान नं०-61/3, गांव-छलेरा बांगर, अम्बेडकर विहार, सेक्टर-37, परगना व तहसील-दादरी, नोएडा, जनपद-गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201303.
1831	राष्ट्रहित चिन्तक विपक्ष पार्टी	प्लॉट नं०-177-ई0/2, रा राष्ट्रहित चिन्ह, वार्ड नं०-2, महरोली, नई दिल्ली-110030.

क्रं सं०	पार्टी का नाम	पता
1832	राष्ट्रीय भारतीय अखण्ड पार्टी	मकान नं०-14, ग्राम+पोस्ट-बेहटा, थाना-सफदरगंज, जिला-बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।
1833	जनाधिपथ्या केरला कांग्रेस	जवाहर बालभवन के पास, भवन संख्या-641, वार्ड नं०-21, कोट्टयम म्यूनिसिपालिटी, जिला-कोट्टयम, केरल
1834	बहुजन महापार्टी	बी-245, गली नं०-2, मण्डावली, फजलपुर, निकट सद्भावना अपार्टमेंट, मदर डेयरी के पीछे दिल्ली-110092
1835	भारतीय संगम पार्टी	230/5, न्यू मेंहदौरी, पो०-तेलियरगंज, जनपद-इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-211004.
1836	सर्व सम्भाव पार्टी	यादव भवन, पुवायॉ रोड, ग्राम व ब्लॉक-बान्दा, तहसील-पुवायॉ, जिला-शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश।
1837	सर्वप्रिये समाज पार्टी	मोहल्ला-अशोक नगर तहरिया, वि गुपुरम कॉलोनी, जिला-इटावा, उत्तर प्रदेश-206001.

(ii) क्रम संख्या-1739 के सामने “वर्तूर कांग्रेस पार्टी” से संबंधित स्तम्भ-2, पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टियों “नम्मा कांग्रेस” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2 उक्त अधिसूचना से संलग्न विद्यमान सारणी-IV (मुक्त प्रतीकों की सूची) को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

**सारणी-IV**  
(मुक्त प्रतीकों की सूची)

1.	एअरकंडीस्नर
2.	अलमारी
3.	ऑटो-रिक्शा (आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
4.	बेबी वॉकर
5.	गुब्बारा
6.	चूड़ियाँ
7.	फलों से युक्त टोकरी (तामिलनाडु राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
8.	बल्ला
9.	बल्लेबाज
10.	बैटरी टार्च
11.	मोतियों का हार
12.	बेल्ट
13.	बेन्च
14.	साईकिल पम्प
15.	दूरबीन
16.	बिस्कुट
17.	ब्लॉक बोर्ड
18.	आदमी व पाल युक्त नौका
19.	बोतल
20.	बक्सा
21.	डबल रोटी
22.	ईटें
23.	ब्रीफकेस

24.	ब्रश
25.	बाल्टी
26.	कैक
27.	कैल्क्यूलेटर
28.	कैमरा
29.	कैन
30.	मोमबत्तियाँ
31.	शिमला मिर्च
32.	कार्पेट
33.	कैरम बोर्ड
34.	फूलगोभी
35.	जंजीर
36.	चक्की
37.	चपाती रोलर
38.	चप्पलें
39.	शतरंज बोर्ड
40.	चिमनी
41.	चिमटी
42.	कोट
43.	नारियल
44.	नारियल फार्म
45.	कलर ट्रे और ब्रश
46.	चारपाई (केरल राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
47.	क्रेन
48.	घन
49.	कप और प्लेट
50.	कटिंग प्लायर
51.	दाव
52.	हीरा
53.	डीजल पम्प
54.	डिश एंटीना
55.	डोली
56.	द्वार घंटी
57.	ड्रिल मशीन
58.	डम्बल्स
59.	बिजली का खंभा
60.	लिफाफा
61.	एक्सटेंशन बोर्ड
62.	बॉसुरी

63.	फव्वारा
64.	फ्राक
65.	फ्राइंग पैन
66.	कीप
67.	गैस सिलेण्डर
68.	गैस का चूल्हा
69.	उपहार
70.	काँच का गिलास
71.	ग्लोब
72.	ग्रामोफोन
73.	अंगूर
74.	हरी मिर्च
75.	हारमोनियम
76.	टोप (आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
77.	हेडफोन
78.	हेलमेट
79.	हॉकी और बाल
80.	आइसक्रीम (तमिलनाडु राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
81.	पानी गरम करने की रॉड
82.	प्रेस
83.	भिंडी
84.	कुन्डी
85.	लैटर बाक्स
86.	लाइटर
87.	लन्च बॉक्स
88.	माचिस की डिब्बी
89.	माईक
90.	मिक्सी
91.	नेल कटर
92.	गले की टाई
93.	नूडल्स कटोरा
94.	कड़ाही
95.	पैट
96.	मूँगफली
97.	नाशपाती (तमिलनाडु व पुदुचेरी को छोड़कर)
98.	मटर
99.	कलम की निब सात किरणों के साथ
100.	पैन-स्टैण्ड
101.	पेन्सिल डिब्बा

102	पेन्सील शार्पनर
103	पेन्डुलम
104	मूसल और खरल
105	पेट्रोल पम्प
106	फोन चार्जर
107	तकिया
108	अनानास
109	करनी
110	खाने से भरी थाली
111	प्लेन स्टैण्ड
112	हान्डी
113	प्रेशर कुकर
114	पंचिंग मशीन
115	रेजर
116	रेफ्रिजरेटर
117	अंगुठी
118	रोड रोलर
119	रूम कूलर
120	रूम हीटर
121	सेपटी पिन
122	आरी (केरल राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
123	स्कूल का बस्ता
124	कैंची
125	सिलाई की मशीन
126	जूता
127	कूदने की रस्सी
128	स्लेट
129	साबुनदानी
130	जुराबे
131	स्टैपलर
132	स्टैथोस्कोप
133	स्टूल
134	झूला
135	सिरिन्ज
136	मेज
137	चाय छलनी
138	टेलीफोन
139	टेलीविजन
140	टेनिस बल्ला व गेंद



141	टैन्ट
142	टीलर
143	टॉफियाँ
144	दौत बुश
145	टूथपेस्ट
146	ट्रैक्टर चलाता किसान
147	ट्रे
148	त्रिभुज
149	ट्रक
150	तुरही
151	टाईपमशीन
152	टायर
153	वैक्यूम क्लीनर
154	वायलिन
155	छड़ी
156	दीवार खूँटी
157	बटुआ
158	अखरोट
159	तरबूज
160	कुआँ
161	हाथ रेहड़ी
162	सीटी
163	खिड़की
164	उन व सिलाई

आदेश से,  
वरिन्दर कुमार,  
प्रधान सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग।

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

## NOTIFICATION

*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001 Dated: 11<sup>th</sup> January, 2017 /  
21 Pausha, 1938 (Saks).*

No. 56/2017/PPS-III — In pursuance of sub-paragraph (2) of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation & Allotment) Order, 1968, the Election Commission of India hereby makes the following further amendments to its Notification No. 56/2016/PPS-III dated 13<sup>th</sup> December, 2016, namely: -

1. In Table III (Registered un-recognised parties), appended to the said Notification-

① After the existing entries at Si. No. 1786, the following entries shall be inserted under Column Nos. 1, 2 & 3, respectively: -

Sl. No.	Party's Name	Address
1787	Democratic Swaraj Party	Arya School Road, V.P.O. Sohana, SAS Nagar, Punjab- 140308.
1788	Bahujan Awam Party	H. No. 52/42/A/2, Edmasten Road, Tashkand Marg, Civil Line, Allahabad, Uttar Pradesh.
1789	Bhrastachar Ka Ant Party	64/189, Gadaria Mohal, Kanpur, Uttar Pradesh-208001.
1790	Swatantra Jantaraj Party	811/1, Civil Line Anshik, Ward No. 52, Jhansi, Uttar Pradesh- 284001.
1791	Aawaam Adhikar Jagran Party	Village — Sarokhanpur, Near Govt. Hospital (CHC), Post — Badlapur, District — Jaunpur, Uttar Pradesh - 222125.
1792	Mahila Sashaktikaran Party	UGF- 63, Udyan Plaza, Utrathiya, Raibareili Road, Lucknow, Uttar Pradesh - 226025
1793	Bharat Kalyan Party	Village — Mevli, Tehsil — Kheragarh, D i s t r i c t — A g r a , Uttar Pradesh- 283115
1794	Dalit Soshit Pichhara Varg Adhikar Dal	Village — Hasanpur Jagir, Post — Sikandrabad, District — Bulandshahr, Uttar Pradesh - 203295.

Sl. No.	Party's Name	Address
1795	Manviya Bharat Party	Village & Post — Rampur Naddi, Tehsil — Madhiyahu, District — Jaunpur, Uttar Pradesh - 222105.
1796	Lok Insaaf Party	B-XXVII/208/403-D/5 Guru Ramdaas Complex, Dugri Road, Ludhiana Punjab - 141001.
1797	Sabhi Jan Party	E-1/32, Deen Dayal Puram, Taudhakpur Road, Naubasta, Kanpur, Uttar Pradesh - 208021.
1798	Rashtriya Garib Utthan Party	Village — Nasopur, Post -Nagpur, Tehsil — Jalalpur, P.S. — Jalalpur, District — Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh - 224149.
1799	Azad Samaj Party	Village — Mandusara Bujurg, Post - Fatehpur, P.S. — Ranipur, District — Mau, Uttar Pradesh - 276402.
1800	Bhartiya Kamgar Party	Village — Chandopara, Post - Chandopara, District — Allahabad, Uttar Pradesh - 212402.
1801	Bharat (Integrated) Rakshak Party	H. No. - B-98, Mayfield Garden, Sector -.50, Gurugram, Haryana -122018.
1802	United Goans Party	Shop No.7, H.No. 18/5/6, Gramilo Apartment, Dondrem, Taleigao, Tiswadi, Goa
1803	Sirupaanmai Makkal Nala Katchi	No. 16A, 9 <sup>th</sup> Cross Street, Anna Nagar, Pammal, Kachipuram. District, Chennai, Tamil Nadu-600075

Sl. No.	Party's Name	Address
1804	Samaj Adhikar Kalyan Party	Booth No. 8, Sector-19-C, Chandigarh, (U.T).
1805	Telangana Pragati Samithi	ADR Estate House No. 2-22-295, 2 <sup>nd</sup> Floor, Bhagyanagar Colony, Above Bank of India, KPHB Main Road, Kukatpally, Hyderabad, Andhra Pradesh — 500072.
1806	Sada Punjab Party	Shanti Nagar, Dhandari Kalan, Ludhiana, Punjab - 141001.
1807	Aam Jan Majdoor Party	Bhadpar Chauraha, Bhadpar, Tehsil-Laharpur, District- ,Siiapur, Uttar Pradesh-
1808	Niz Goenkar Revolution Front	H.No. 9/222, Patrong, Baina, Vasco-Da-Gama, Goa.
1809	Satya Shikhar Party	H. No. - 70-A, Village — Narharpur (Shankarpur), P.O. Miyaganj, District — Faizabad, Uttar Pradesh - 224208.
1810	Bharat Jansangram Party	H. No. 366, Ahilya, New Shangani Nagar, Post- HVPM, Amravati, Maharashtra- 444605.
1811	Poorna Swaraj Manch	House No. 1/328, GwalToli, Fathehgarh, District- Farrukhabad Uttar Pradesh- 209601
1812	Insaafwadi Party	Village & post — Piyari, P.S. — Chaubeypur, District — Varanasi, Uttar Pradesh - 221104.

Sl. No.	Party's Name	Address
1813	Aapna Punjab Party	H.No. 2442, Phase- 11, Sector — 65, S.A.S. Nagar, Mohali, Punjab.
1814	Indian Sarvahit Party	6-B/138, Gopesh Kunj, Vrindavan Yojna, Raebareli Road, Lucknow, Uttar Pradesh- 226025.
1815	Rashtriya Kisan Majdoor Party	W-127, 1 <sup>st</sup> Floor, Greater Kailash —II, New Delhi- 110048.
1816	Loktantrik Janshakti Party	H. No. 107, Keshar Colony, Haldauni, Greater Noida, District — Gautambudh Nagar, Uttar Pradesh- 201306
1817	Sattari Yuva Morcha	House No. 48, Kankire, Guleli, Sattari, Goa.
1818	Goa Nationalist Party	House No. 442, Chinchmala, Wada Parye, Sattari, Goa- 403505.
1819	Pichhada Samanya Alpsankhyak Vyapari Kisan Party	H.No.402 Kh, NaglaKhandari, Alipur Patti, P.S- Bhongaon, Tehsil- Bhongaon, District-Mainpuri, Uttar Pradesh.
1820	Akhand Rashtrawadi Party	7/5/67/2, Vikas Nagar, Sector — 7, Lucknow, Uttar Pradesh - 226002.
1821	Bharatiya Berojgar Party	Village-Kanta Karaundi , Post- Meerak Nagar, Police Station- Nigoha, Tehsil- MohanlalGanj, District- Lucknow, Uttar Pradesh- 226302
1822	Bhartiya Rashtriya Jagruk Dal	E - 2 5 4 8 , R a j a j i p u r a m , Lucknow, Uttar Pradesh- 226017.

Sl. No.	Party's Name	Address
1823	Rashtriya Vikaswadi Janta Party	Village and Post-Hariharpur Raikwari, District- Bahraich, Uttar Pradesh-271870
1824	Sabka Dal United	Village and Post- Sairpur, Raitha Road, Block- Chinhat, District- Lucknow, Uttar Pradesh- 226201
1825	Loktantrik Samajik Nyay Party	H. No. E-5, Indira Gandhi Marg, East Vinod Nagar, Delhi — 110091.
1826	Kendriya Janvikas Party	Plot No. - 179, Ayurvedic Layout, Bhande Plot, Umrer Road,Sakkardara, Dist- Nagpur, Maharashtra- 440024.
1.827	Revolutionary Marxist Party of India	Shaheed Sarwan Singh Cheema Memorial Trust Building, 352/1, PhagwariMohalla, Garha, Jalandhar Punjab-144022.
1828	Goa Suraksha Manch	Shop No. 644/1, Ward No. 4, Ground Floor, Ahilyaram Niwas, Opp. Panchayat, Savaiverem, Ponda-Goa.
1829	Bhartiya Jan Jan Party	Shop No. 8 & 9, 2 <sup>nd</sup> Floor, Goyal Plaza, Faizabad Raod, Lucknow, Uttar Pradesh.
1830	Bhartiya Bhaichara Party	H. No. 61/3, Village- Chhalera Bangar, Ambedkar Vihar, Sector- 37, Pargana & Tehsil- Dadri, Noida, District- Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh - 201303.
1831	Rashtrahit Chintak Vipaksh Party	Plot No. 177E/2, Ward No. — 2, Mehrauli, New Delhi — 110030.
1832	Rashtriya Bharatiya Akhand Party	H. No. — 14, Village & Post — Behta, Vikas Khand — Masauli, P.S. — Safdarganj, District — Barabanki, UTTAR PRADESH.

Sl. No.	Party's Name	Address
1833	Janadhipathiya Kerala Congress	Near JawaharBalbhavan, Building No. 641, Ward No. 21, Kottayam Municipality, District — Kottayam, KERALA.
1834	Bahujan Maha Party	B-245, Street No. 2, Mandawali, Fazalpur, Near Sadbhavna Apartment, Back of Mother Dairy, Delhi-110092.
1835	Bhartiya Sangam Party	230/5, New Menhdauri, Post — Teliyarganj, District- Allahabad, Uttar Pradesh- 211004.
1836	Sary Sambhaav Party	Yadav Bhawan, Puwayan Road, Village & Block- Banda, Tehsil- Puwayan, District- Shahjahanpur, Uttar Pradesh.
1837	Sarvpriye Samaj Party	Mohalla- Ashok Nagar Shahariya, Vishnu Puram Colony, Distt. Etawah, Uttar Pradesh- 206001.

(ii) Against SI. No.1739, in respect of Varthur Congress Party' the existing entry under column 2 shall be substituted by the entry 'Namma Congress'.

2. Existing *Table IV* (List of Free Symbols), appended to the said Notification shall be substituted by the following:-

TABLE IV  
(LIST OF FREE SYMBOLS)

1.	Air Conditioner
2.	Almirah
3.	Auto- Rickshaw ( <i>In all States and Union Territories except in the States of Andhra Pradesh and Telangana</i> )
4.	Baby Walker
5.	Balloon
6.	Bangles
7.	Basket containing Fruits ( <i>In all States and Union Territories except in the State of Tamil Nadu</i> )
8.	Bat
9.	Batsman
10.	Battery Torch
11.	Bead Necklace
12.	Belt
13.	Bench

14.	Bicycle Pump
15.	Binoculars
16.	Biscuit
17.	Black Board
18.	Boat with Man and Sail
19.	Bottle
20.	Box
21.	Bread
22.	Bricks
23.	Brief Case
24.	Brush
25.	Bucket
26.	Cake
27.	Calculator
28.	Camera
29.	Can
30.	Candles
31.	Capsicum
32.	Carpet
33.	Carrom Board
34.	Cauliflower
35.	Chain
36.	Chakki
37.	Chapati Roller
38.	Chappals
39.	Chess Board
40.	Chimney
41.	Clip
42.	Coat
43.	Coconut
44.	Coconut Farm
45.	Colour Tray & Brush
46.	Cot ( <i>in all States and Union Territories except in the State of Kerala</i> )
47.	Crane
48.	Cube
49.	Cup & Saucer
50.	Cutting Pliers
51.	Dao
52.	Diamond
53.	Diesel Pump
54.	Dish Antenna
55.	Dolli
56.	Door Bell



57.	Drill Machine
58.	Dumbbells
59.	Electric Pole
60.	Envelope
61.	Extension Board
62.	Flute
63.	Fountain
64.	Frock
65.	Frying Pan
66.	Funnel
67.	Gas Cylinder
68.	Gas Stove
69.	Gift Pack
70.	Glass Tumbler
71.	Globe
72.	Gramophone
73.	Grapes
74.	Green Chilli
75.	Harmonium
76.	<i>Hat (in all States and Union Territories except in the States of Andhra Pradesh and Telangana)</i>
77.	Head Phone
78.	Helmet
79.	Hockey and Ball
80.	<i>Ice Cream (In all States and Union Territories except in the State of Tamil Nadu)</i>
81.	Immersion Rod
82.	Iron
83.	Lady Finger
84.	Latch
85.	Letter Box
86.	Lighter
87.	Lunch Box
88.	Matchbox
89.	Mike
90.	Mixee
91.	Nail Cutter
92.	Neck Tie
93.	Noodles Bowl
94.	Pan
95.	Pants
96.	Peanuts
97.	<i>Pears (Except in Tamil Nadu and Pudducherry)</i>

98.	Peas
99.	Pen Nib with Seven Rays
100.	Pen Stand
101.	Pencil Box
102.	Pencil Sharpener
103.	Pendulum
104.	Pestle and Mortar
105.	Petrol Pump
106.	Phone Charger
107.	Pillow
108.	Pineapple
109.	Plastering Trowel
110.	Plate Containing Food
111.	Plate Stand
112.	Pot
113.	Pressure Cooker
114.	Punching Machine
115.	Razor
116.	Refrigerator
117.	Ring
118.	Road Roller
119.	Room Cooler
120.	Room Heater
121.	Safety Pin
122.	Saw ( <i>In all States and Union Territories except in the State of Kerala</i> )
123.	School Bag
124.	Scissors
125.	Sewing Machine
126.	Shoe
127.	Skipping Rope
128.	Slate
129.	Soap Dish
130.	Socks
131.	Stapler
132.	Stethoscope
133.	Stool
134.	Swing
135.	Syringe
136.	Table
137.	Tea Filter
138.	Telephone
139.	Television
140.	Tennis Racket & Ball

141.	Tent
142.	Tiller
143.	Toffees
144.	Tooth Brush
145.	Tooth Paste
146.	Tractor Chalata Kisan
147.	Tray
148.	Triangle
149.	Truck
150.	Trumpet
151.	Typewriter
152.	Tyres
153.	Vacuum Cleaner
154.	Violin
155.	Walking Stick
156.	Wall Hook
157.	Wallet
158.	Walnut
159.	Water Melon
160.	Well
161.	Wheel Ban`ow
162.	Whistle
163.	Window
164.	Wool and Needle

By order,  
VARINDER KUMAR,  
PRINCIPAL SECRETARY,  
ELECTION COMMISSION OF INDIA.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 75-571+50-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>